



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1932 (श0)  
(सं0 पटना 737) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2010

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

19 अक्टूबर 2010

सं० निग/सारा-4-(पथ)-आरोप-04/10-14685(एस)— श्री रवि वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी, सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा पथ प्रमंडल मधुबनी के पदस्थापन काल में मधेपुर-ढेगहा पथ ( लम्बाई 5.6 कि०मी० ) में मिट्टी कार्य के Compaction का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के आरोप के लिए आरोप प्रपत्र “क” गठित कर श्री वर्मा से विभागीय पत्रांक-1459 (ई) अनु०, दिनांक 19 अप्रैल 2010 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री रवि वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पटना द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक शून्य, दिनांक 02 जून 2010 के विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री वर्मा द्वारा मिट्टी के Compaction कार्य का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया।

इस आलोक में श्री रवि वर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल मधुबनी सम्प्रति सहायक अभियंता, सेतु निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए “चेतावनी” का दंड संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह०) अस्पष्ट,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 737-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>